



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 फाल्गुन 1935 (श0)
(सं0 पटना 305) पटना, शुक्रवार, 14 मार्च 2014

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

13 जनवरी 2014

सं0 1907—औरंगाबाद जिलान्तर्गत श्री सूर्य मंदिर, मौलाबाग, दाउदनगर पर्षद के तहत निबंधित एक सार्वजनिक हिन्दू धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0—4286 है।

श्री सूर्य मंदिर, मौलाबाग, दाउदनगर, औरंगाबाद के संबंध में स्थानीय जनता द्वारा एक आवेदन देकर उक्त मंदिर के निबंधन हेतु आग्रह किया गया था। उक्त आवेदन के आलोक में दिनांक 05/12/2013 को न्यास का निबंधन किया गया। तदोपरांत उक्त न्यास के सम्यक संचालन एवं सुचारु प्रबंधन के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी, दाउदनगर की अध्यक्षता में आहूत बैठक के कार्यवृत्त की प्रति, जो स्थानीय जनता के हस्ताक्षर एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, दाउदनगर द्वारा अग्रसारित है, दिनांक 30/12/2013 को पर्षद कार्यालय में प्राप्त हुआ। इस आवेदन में सर्वसम्मति से अनुमण्डल पदाधिकारी, दाउदनगर—पदेन अध्यक्ष सहित ग्यारह व्यक्तियों का चयन कर, उनके नाम (पदनाम सहित) की सूची, न्यास—समिति गठन के लिए पर्षद को अनुमोदन हेतु प्राप्त हुआ।

अतः न्यास के सुचारु प्रबंधन एवं सम्यक विकास के लिए बिहार राज्य धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा— 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण एवं इसके कार्यान्वयन हेतु न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा—32 के अन्तर्गत में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो धार्मिक न्यास की उप—विधि सं0— 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए **श्री सूर्य मंदिर, मौलाबाग, दाउदनगर, जिला— औरंगाबाद** के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

योजना

1. अधिनियम की धारा— 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “**श्री सूर्य मंदिर न्यास योजना**, मौलाबाग, दाउदनगर, जिला— औरंगाबाद” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “**श्री सूर्य मंदिर न्यास समिति**, मौलाबाग, दाउदनगर, जिला— औरंगाबाद” जिसमें न्यास की समग्र चल—अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की संपत्तियों की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा—पाठ, तीर्थ—यात्री एवं साधु—सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय, न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय-व्यय में, आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।
 5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के बजट, आय-व्यय की विवरणी, पर्षद शुल्क, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।
 6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।
 7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा, तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।
 8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि "यदि कोई हो तो", उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
 9. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
 10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे, तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
 11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- अनुमण्डल पदाधिकारी, दाउदनगर, औरंगाबाद द्वारा ग्यारह सदस्यीय प्रस्तावित समिति को अनुमोदित करते हुए, पर्षद द्वारा निरूपित इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक न्यास समिति गठित की जाती है:-

- | | | | |
|------|---|---|--------------|
| (1) | अनुमण्डल पदाधिकारी, दाउदनगर, औरंगाबाद | — | पदेन अध्यक्ष |
| (2) | डॉ० संजय कुमार सिंह | — | सचिव |
| | द्वारा- श्री रामनरेश सिंह, सूर्य मंदिर के निकट, वार्ड नं०- 22, दाउदनगर, औरंगाबाद | | |
| (3) | श्री मनोज कुमार केशरी | — | कोषाध्यक्ष |
| | पिता- श्री सिद्धेश्वर प्र० केसरी, ब्लॉक रोड, वार्ड नं०- 22, दाउदनगर, औरंगाबाद | | |
| (4) | श्री ओम प्रकाश | — | सदस्य |
| | पिता- स्व० संजीवन साव, वार्ड नं०- 22, मौलाबाग, दाउदनगर, औरंगाबाद | | |
| (5) | श्री महेन्द्र प्र० सिंह | — | " |
| | पिता- स्व० धनेश प्रसाद, संसार इलेक्ट्रीक वाला दुकान, मौलाबाग, वार्ड नं०- 22, दाउदनगर | | |
| (6) | श्री अशोक कुमार | — | " |
| | पिता- श्री बालेश्वर शर्मा, गौतम मेडिकल हॉल, ब्लॉक रोड, मौलाबाग, दाउदनगर, औरंगाबाद | | |
| (7) | श्री मनोज कुमार मिश्र | — | " |
| | पिता- स्व० सुधाकर मिश्र, ब्राह्मण टोली, पुराना शहर, वार्ड नं०- 4, दाउदनगर, औरंगाबाद | | |
| (8) | श्री योगेन्द्र पासवान | — | " |
| | पिता- स्व० सीताराम राम, ग्राम- कटरिया, पो०- अकौनी, थाना- दाउदनगर, औरंगाबाद | | |
| (9) | श्री सत्येन्द्र कुमार तिवारी | — | " |
| | पिता- स्व० कामता तिवारी, तिवारी मोहल्ला, भखरुआँ मोड़, दाउदनगर, औरंगाबाद | | |
| (10) | श्री कृष्ण रंजन सहाय | — | " |
| | पिता- स्व० शिववंत सहाय, न्यू एरिया, मौलाबाग, वार्ड नं०- 22, दाउदनगर, औरंगाबाद | | |
| (11) | श्री विकास आनन्द | — | " |
| | पिता- श्री सुदर्शन शर्मा, ब्लॉक रोड, मौलाबाग, दाउदनगर, औरंगाबाद | | |
| (12) | उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्यकाल, अधिसूचना का गजट प्रकाशन होने की तिथि से अगले 05 वर्षों का होगा, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर न्यास समिति के विस्तार पर यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा। | | |

विश्वासभाजन,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 305-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>